

## जो दूसरो की चिंता करता है वह महान होता है-राज्यपाल 19-3-2017

चंडीगढ़, 19 मार्च- अपनी चिंता तो सभी करते हैं लेकिन जो दूसरो की चिंता करता है वह महान होता है। इसलिए समाज व देश के हित के लिए हर व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए क्योंकि समाज से हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये उद्गार हरियाणा के राज्यपाल प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी ने आज हरियाणा राजभवन में विश्व ग्लुकोमा सप्ताह के उपलक्ष में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन ग्लुकोमा स्पोर्ट ग्रुप, एडवांस आई केयर सेंटर, पी०जी०आई० चण्डीगढ़ ने किया था। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्य सचिव डी०एस० ढेसी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

ग्लुकोमा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ग्लुकोमा स्पोर्ट ग्रुप की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जागरूकता मानव समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना तो हम आंखें होने पर भी अंधे होते हैं। उन्होंने कहा कि आंखों के बिना पूरा जीवन ही अंधकारमय हो जाता है इसलिए आंखों के प्रति जागरूक न होने पर जीवन का सुख छिन सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आंख में कोई भी छोटी परेशानी होने पर भी उसकी तुरंत आंखों के डाक्टर से जांच करवाएं।

राज्यपाल ने इस अवसर पर ग्लुकोमा के प्रति जागरूकता के लिए नाटक प्रस्तुत करने वाले दृष्टिबाधित बच्चों व अन्य कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने सब बच्चों को एक-एक हजार रुपये पुरस्कारस्वरूप देने की घोषणा की। इन बच्चों ने ग्लुकोमा की जागरूकता के लिए अत्यन्त प्रभावशाली संगीतमय नाटक प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने समाज सेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान करने के लिए पी०जी०आई० के पूर्व निदेशक पदमश्री डा०० अमोद गुप्ता, डा०० प्रियंका राय, डा०० एच०एस० ओबराय, डा०० एम०आर० डोगरा, निर्देशक राजीव मेहता को सम्मानित किया।

इससे पहले ग्लुकोमा स्पोर्ट ग्रुप के अध्यक्ष प्रो० एस०एस० पांडव ने सबका स्वागत किया और संस्था की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर हरियाणा की पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी, राज्यपाल के सचिव डा००

अमित कुमार अग्रवाल, पी0जी0आई0एम0ई0आर0 के निदेशक डाॅ0 जगतराम आदि उपस्थित थे।









